



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/पौष 22, 1938

No. 24]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

सं. 1/2017-सेवा कर

सा.का.नि. 24(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, जिसे सा.का.नि. 467(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

प्रारम्भिक पैराग्राफ में,

(क) प्रविष्टि 29 के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“बैंकिंग कंपनी के ग्रामीण क्षेत्र में खाते के संबंध में बैंकिंग कंपनी के कारोबार सुलभ करता अथवा कारोबार संवाददाता,”

(ख) प्रविष्टि 34 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को 22 जनवरी, 2017 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“बशर्ते कि यह छूट -

- (i) उप-वाक्य (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सेवाओं पर; या
- (ii) भारत के बाहर अवस्थित स्थान से जहाज के द्वारा भारत में अवस्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक माल का परिवहन करके प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी;”;

[फा. सं. 354/42/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 25/2015-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, सा.का.नि. 467(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 52/2016-सेवा कर, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016, सा.का.नि. 1122(अ), दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2017

#### No. 1/2017-Service Tax

**G.S.R. 24(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.25/2012-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 467(E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2012, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph,-

- (i) in entry 29, for item (g), the following item shall be substituted, namely:-

“(g) business facilitator or a business correspondent to a banking company with respect to accounts in its rural area branch.”

- (ii) in entry 34, for the proviso, the following proviso shall be substituted with effect from 22<sup>nd</sup> day of January, 2017, namely,-

“Provided that the exemption shall not apply to –

- (i) online information and database access or retrieval services received by persons specified in clause (a); or
- (ii) services by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India;”.

[F. No. 354/42/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 25/2012 - Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2012, *vide* number G.S.R. 467(E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2012 and last amended *vide* notification number 52/2016-Service Tax, dated the 8<sup>th</sup> December, 2016 *vide* number G.S.R. 1122(E), dated the 8<sup>th</sup> December, 2016.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

**सं. 2/2017-सेवा कर**

**सा.का.नि. 25(अ).—**वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सेवा कर नियमावली, 1994 में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

1. (1) इन नियमों को सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 22 जनवरी, 2017 से लागू होंगे।

2. सेवाकर नियमावली, 1994, नियम 2 में, उप-नियम (1) में,-

(i) उपवाक्य (क), में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“बशर्ते कि, एग्रीगेटर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो कि किसी सक्षम ग्राहक को ऐसे व्यक्तियों से जोड़ता है जो कि होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैम्पसाइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान जिनका उपयोग आवासीय या लॉजिंग के लिए होता हो, को निम्नलिखित शर्तों के तहत किराए पर देकर सेवा प्रदान करता हो, यथा :-

(क) आवासीय या लॉजिंग के उपयोग के लिए होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैम्पसाइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान, को किराए पर देकर सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति जिसने इस नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत सेवाकर पंजीकरण प्राप्त कर लिया है; और

(ख) ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा सेवा कर सम्पूर्ण प्रतिफल सीधे प्राप्त कर लिया जाता है और कुछ भी राशि जो कि ऐसे सेवा प्रदाता की सेवा के प्रतिफल का हिस्सा हो, एग्रीगेटर या तो सेवा प्राप्तकर्ता से या उसके प्रतिनिधि से प्राप्त करता है”;

(ii) उपवाक्य (घ) में, उप-उपवाक्य (i) में, मद ड.ड.ख के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(ड.ड.ग) ऐसी सेवाओं के संबंध में जो कि गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में स्थित ऐसे व्यक्ति को भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक जहाज के द्वारा माल का परिवहन करके दी जाती हैं या दिए जाने का वचन दिया जाता है; भारत में रहने वाला व्यक्ति जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 148 के साथ पठित धारा 29, 30 या 38 के अंतर्गत उक्त वस्तुओं से संबंधित प्रावधानों को पूरा करता है;”

[फा. सं. 354/42/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 02/94-सेवा कर, दिनांक 28 जून, 1994, सा.का.नि. 546(अ), दिनांक 28 जून, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 53/2016-सेवा कर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016, सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th January, 2017

**No. 2/2017-Service Tax**

**G.S.R. 25(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of January, 2017.

2. In the Service Tax Rules, 1994, in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) in clause (aa), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that aggregator shall not include such person who enables a potential customer to connect with persons providing services by way of renting of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes subject to following conditions, namely:-

(a) the person providing services by way of renting of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes has a service tax registration under provision of these rules; and

(b) whole of the consideration for services provided by such service provider is received directly by such service provider and no amount, which forms part of the consideration of services of such service provider, is received by the aggregator directly from either recipient of the service or his representative.”;

(ii) in clause (d), in sub-clause(i), after item (EEB), the following item shall be inserted, namely:-

“(EEC) in relation to services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India, the person in India who complies with sections 29, 30 or 38 read with section 148 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) with respect to such goods;”.

[F. No. 354/42/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28<sup>th</sup> June, 1994 *vide* number G.S.R. 546(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 1994 and last amended *vide* notification No. 53/2016-Service Tax, dated the 19<sup>th</sup> December, 2016 *vide* number G.S.R. 1155(E), dated the 19<sup>th</sup> December, 2016.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

**सं. 3/2017-सेवा कर**

**सा.का.नि. 26(अ).**—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 जिसे सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैराग्राफ I में, उपवाक्य (क) में, उप-उपवाक्य (vi), के पश्चात निम्नलिखित उप-उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(vii) गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में स्थित व्यक्ति द्वारा गैर-कर वाले भू-क्षेत्र में स्थित व्यक्ति को भारत के बाहर स्थित स्थान से भारत में स्थित कस्टम स्टेशन तक जहाज के द्वारा वस्तुओं का परिवहन करके प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए वचन दिए जाने वाली;”;

(ii) पैराग्राफ (II) में, सारणी में, क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“12.	भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक जहाज के द्वारा वस्तुओं का परिवहन करके दी गई या दिए जाने के लिए वचन दी गई सेवाओं के संबंध में	शून्य	100%”.
------	--	-------	--------

(iii) स्पष्टीकरण III के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“स्पष्टीकरण IV- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, भारत के बाहर स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित कस्टम क्लियरेंस स्टेशन तक जहाज के द्वारा वस्तुओं का परिवहन करके दी गई या दिए जाने के लिए वचन दी गई सेवाओं के संबंध में, सेवा प्रदाता से पृथक सेवा कर का भुगतान करने का दायी वही व्यक्ति होगा जो कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क धिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 148 के साथ पठित धारा 29, 30 या 38 के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

2. यह अधिसूचना 22 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/42/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 30/2012 – सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, सा.का.नि. 472(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 49/2016-सेवा कर, दिनांक 9 नवम्बर, 2016, सा.का.नि. 1058(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2017

### No. 3/2017-Service Tax

**G.S.R. 26(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30/2012-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 472(E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2012, namely:-

1. In the said notification,-

(i) in paragraph I, in clause (A), after the sub-clause (vi), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(vii) provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India;”;

(ii) in paragraph (II), in the Table, after Sl. No. 11 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:-

“12.	in respect of services provided or agreed to be provided by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India	Nil	100%”.
------	---	-----	--------

(iii) after *Explanation III*, following *Explanation* shall be inserted, namely:-

“*Explanation IV*.- For the purposes of this notification, in respect of services provided or agreed to be provided by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India, person liable for paying service tax other than the service provider shall be the person in India who complies with sections 29, 30 or 38 read with section 148 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) with respect to such goods.”.

2. This notification shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of January, 2017.

[F. No. 354/42/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 30/2012 - Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2012, vide number G.S.R. 472(E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2012 and last amended vide notification No. 49/2016-Service Tax, dated the 9<sup>th</sup> November, 2016 vide number G.S.R. 1058(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

#### सं. 4/2017-सेवा कर

**सा.का.नि. 27(अ).**—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होतु हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, जिसे सा.का.नि. 468(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में, सारणी में, क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“11	दूर ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं	60	(i) कर वाली सेवाओं को प्रदान किए जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट न लिया गया हो। (ii) इस उद्देश्य के लिए जारी किए जाने वाले बिल में यह दर्शाया गया हो कि इसमें ऐसे पर्यटन के लिए जरूरी आवास और परिवहन प्रभार शामिल हैं तथा बिल में प्रभारित राशि ऐसे पर्यटन जिसमें आवास और परिवहन प्रभार शामिल हैं, के लिए प्रभारित सकल राशि है”।

2. यह अधिसूचना 22 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/42/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना सं. 26/2012 – सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि. 468(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 38/2016-सेवा कर, दिनांक 30 अगस्त, 2016, सा.का.नि. 835(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2017

### No. 4/2017-Service Tax

**G.S.R. 27(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/2012-Service Tax, dated the 20<sup>th</sup> June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 468(E), dated the 20th June, 2012, namely:-

1. In the said notification, in the first paragraph, in the TABLE, for Sl. No. 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“11	Services by a tour operator	60	<p>(i) CENVAT credit on inputs and capital goods used for providing the taxable service, has not been taken under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004.</p> <p>(ii) The bill issued for this purpose indicates that it is inclusive of charges of accommodation and transportation required for such a tour and the amount charged in the bill is the gross amount charged for such a tour including the charges of accommodation and transportation required for such a tour.”.</p>

2. This notification shall come into force on the 22<sup>nd</sup> day of January, 2017.

[F. No. 354/42/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 26/2012 - Service Tax, dated 20<sup>th</sup> June, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 468(E), dated the 20<sup>th</sup> June, 2012 and was last amended by notification No. 38/2016-Service Tax, dated the 30<sup>th</sup> August, 2016, *vide* G.S.R. 835(E), dated the 30<sup>th</sup> August, 2016.